



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 401) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

सं0 08/आरोप-01-222/2014, सां0प्र0-16342
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
7 दिसम्बर 2016

श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1130/11 के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के पद पर पदस्थापन के दौरान अनियमित रूप से सोलर लाइट क्रय करने एवं कतिपय अन्य अनियमितता बरतने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-850, दिनांक 08.02.2016 द्वारा प्राप्त आरोपों (जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-129, दिनांक 12.01.2016 द्वारा प्रेषित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति) के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के तहत मामले की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापक-15526, दिनांक 18.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। तदनुसार आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अपने स्तर से उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनीत करने का निदेश दिया गया।

श्री प्रकाश से प्राप्त अभ्यावेदन (दिनांक 23.11.2016) में उनके गम्भीर रूप से कैंसरग्रस्त होने, ईलाज संबंधी आवश्यकताओं के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री प्रकाश से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 401-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>